

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 93]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 18 जनवरी 2010—पौष 28, शक 1931

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 15 जनवरी 2010

फा. क्र. 17(ई)-133-09-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश में त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम चुनाव 2010 सम्पन्न कराने के लिए जिला जबलपुर में दिनांक 18 जनवरी 2010 से दिनांक 28 जनवरी 2010 तक की अवधि के लिए संलग्न सूची में उल्लेखित अधिकारियों को त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम चुनाव 2010 का कार्य सम्पादित कराने के लिए विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी नियुक्त करता है और उन्हें उक्त कार्य के लिये विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. जे. खान, सचिव.

जिला जबलपुर

| क्र. | अधिकारी का नाम/पदनाम/कार्यालय/मोबाईल | सेवा संवर्ग का नाम | क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां दिया जाना प्रस्तावित है. |
|------|---|--------------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | श्री पी. के. सोलंकी, प. चि. सं. शि. रो. अ. प्रयोगशाला, जबलपुर 9424678171. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, कुण्डम क्षेत्र |
| 2 | श्री वी. के. दुबे, कार्यपालन यंत्री, भू-जल सर्वेक्षण सिविल लाईन, जबलपुर 9425833997. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, कुण्डम क्षेत्र |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|---|--------------|-----------------------------|
| 3 | डॉ. एस. के. तिवारी, वैज्ञानिक-सी, संचालक, राज्य वन अनुसंस्थान, पोलीपाथर, जबलपुर 9407022064. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, कुण्डम क्षेत्र |
| 4 | श्री पवन शर्मा, कार्यपालन यंत्री, कार्या. उप संचालक, नगरीय प्रशासन, जबलपुर 9425384731. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, कुण्डम क्षेत्र |
| 5 | श्री आर. एम. वर्मा, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 8, सिहोरा 9425325319. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, कुण्डम क्षेत्र |
| 6 | श्री एम. एल. फौजदार, सहायक यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 4, जबलपुर 9826552106. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, कुण्डम क्षेत्र |
| 7 | श्री एस. बी. धोपेश्वर, सहायक भौमिकी विद क्षेत्रीय खनिज कार्मिक, जबलपुर 9425452417. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, कुण्डम क्षेत्र |
| 8 | श्री राजेश शाक्यवार, कार्य. यंत्री, लो. स्वा. यांत्रिकी खण्ड दमोह नाका, जबलपुर 9425131699. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, कुण्डम क्षेत्र |
| 9 | श्री एस. एस. खरे, सहायक यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, कुण्डम, जबलपुर 9893350592. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, कुण्डम क्षेत्र |
| 10 | श्री अश्विनी अंबर, अनुसंधान अधिकारी, एम. पी. एस. आई. आर. डी., जबलपुर 9406675086 | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, कुण्डम क्षेत्र |
| 11 | श्री सुधीर जैन, प्रशासनिक अधिकारी, म. प्र. राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, जबलपुर, 9406740792. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, कुण्डम क्षेत्र |
| 12 | श्री आर. जी. चौबे, कार्यपालन यंत्री, विद्युत यांत्रिकी संभाग क्र. 2, बरगी नगर, जबलपुर 9425357201. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, कुण्डम क्षेत्र |
| 13 | डॉ. जे. एल. श्रीवास्तव, वैज्ञानिक-डी संचालक, राज्य वन अनुसंस्थान पोलीपाथर, जबलपुर 9425160085. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, कुण्डम क्षेत्र |
| 14 | श्री एन. एन. सिद्दीकी, सहायक यंत्री, ई एण्ड एम, पी. डब्ल्यू. डी., जबलपुर 9425325635. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, कुण्डम क्षेत्र |
| 15 | श्री जी. डी. द्विवेदी, कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग, जबलपुर 9424925720. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, कुण्डम क्षेत्र |
| 16 | डॉ. ओ. पी. चौबे, वैज्ञानिक-डी संचालक, राज्य वन अनुसंधान, जबलपुर 9977411164. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, कुण्डम क्षेत्र |
| 17 | श्री एम. एल. अहिरवार, कार्यपालन यंत्री, रा. अ. सागर बांध बरगी नगर, जबलपुर 9826085017, | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, कुण्डम क्षेत्र |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|---|--------------|-----------------------------|
| 18 | डॉ. आर. के. पाण्डे, वैज्ञानिक-डी संचालक, राज्य वन अनुसंस्थान, पोलीपाथर, जबलपुर 9993400918. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, कुण्डम क्षेत्र |
| 19 | श्री जी. के. तिवारी, महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जबलपुर 9424925505. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, कुण्डम क्षेत्र |
| 20 | श्री एस. पी. गौतम, संपत्ति अधिकारी, म. प्र. गृह निर्माण मंडल, हाथीताल, जबलपुर 9425800525. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, कुण्डम क्षेत्र |
| 21 | श्री प्रमोद खरे, सहायक यंत्री, मुख्य अभि., रानी अवंति बाई सागर परि., बरगी हिल्स, 9424913479. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, कुण्डम क्षेत्र |
| 22 | श्री जी. पी. तिवारी, सहायक यंत्री, हिरन जल संसाधन जबलपुर 9827285622. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, कुण्डम क्षेत्र |
| 23 | श्री अनिल चौहान, विधि अधिकारी, नगर निगम, जबलपुर 9827779584. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, पाटन क्षेत्र |
| 24 | श्री ए. के. जैन, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग-4, बरगी हिल्स, जबलपुर 9827607497. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, पाटन क्षेत्र |
| 25 | श्री जी. पी. कोरी, अनुविभागीय अधिकारी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, पाटन 9425384740. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, पाटन क्षेत्र |
| 26 | श्री आर. एस. ठाकुर, अनुविभागीय अधिकारी, कार्या. रानी अवंती बाई सागर संभाग-2, बरगी हिल्स, जबलपुर 9826103546. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, पाटन क्षेत्र |
| 27 | श्री डी. के. श्रीवास्तव, प्राचार्य, कृषक प्रशिक्षण केन्द्र, कंचनपुर, आधारताल, जबलपुर 9826299963. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, पाटन क्षेत्र |
| 28 | श्री जी. सी. मर्सकोले, कृषि यंत्री, कृषि अभियांत्रिकी कार्यालय, जबलपुर 9424351916. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, पाटन क्षेत्र |
| 29 | श्री एस. एस. पवार कार्यपालन यंत्री, रानी अवंती बाई सागर नहर संभाग क्र. 2, जबलपुर 9300104296. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, पाटन क्षेत्र |
| 30 | श्री आर. एस. त्रिपाठी, अनु. अधिकारी, रानी अवंती बाई सागर संभाग 2, बरगी 9425877583. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, पाटन क्षेत्र |
| 31 | श्री पी. के. वैद्य, सहायक यंत्री, नर्मदा विकास संभाग-4, कटंगी, जबलपुर 9826321607. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, पाटन क्षेत्र |
| 32 | श्री आर. एस. दुबे, अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, सिहोरा, जबलपुर 9893675547. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, पाटन क्षेत्र |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|--|--------------|---------------------------|
| 33 | श्री एन. एल. डेगरा, सहा. यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग पचपेढी, जबलपुर 9827298096. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, पाटन क्षेत्र |
| 34 | श्री एस. के. अग्रवाल, वरिष्ठ भूजल विद् अनुसंधान मंडल, पचपेढी, जबलपुर 9425341416. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, पाटन क्षेत्र |
| 35 | श्री राजवीर नयन, कार्यपालन यंत्री, नगर निगम, जबलपुर 9425151364. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, पाटन क्षेत्र |
| 36 | श्री एस. एल. मुजाल्दा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला अंत्यावसायी निगम, जबलपुर 9200013079. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, पाटन क्षेत्र |
| 37 | श्री व्ही. के. जैन, सहायक यंत्री, रा. अ. बा. सा. संभाग-2 बरगी हिल्स, जबलपुर 9424728315. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, पाटन क्षेत्र |
| 38 | श्री विनय श्रीवास्तव, उद्यान अधिकारी, नगर निगम, जबलपुर 9229546806. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, पाटन क्षेत्र |
| 39 | श्री एम. एम. चटर्जी, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग आर/आर, जबलपुर 9425155709. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, पाटन क्षेत्र |
| 40 | श्री मदन पटेल, सहायक यंत्री, नगर निगम, जबलपुर 9827779399. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, पाटन क्षेत्र |
| 41 | श्री व्ही. के. झा, सहायक यंत्री, जबलपुर विकास प्राधिकरण, जबलपुर, 9425861049. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, पाटन क्षेत्र |
| 42 | श्री सी. के. नेमा, उप संचालक, क्षेत्रीय अधिकारी, भौमिकी एवं खनिकर्म, जबलपुर 9407708644. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, पाटन क्षेत्र |
| 43 | श्री सतेन्द्र सिंह, सहायक भौम विद् म. प्र. स्टेट माईनिंग कार., नेपियर टाऊन, जबलपुर 9425386244. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, पाटन क्षेत्र |
| 44 | श्री आर. एस. वर्मा, सहायक यंत्री, हिरन जलसंसाधन संभाग, जबलपुर 9826818528. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, पाटन क्षेत्र |
| 45 | श्री एस. सी. जैन, प्रभारी कार्यपालन यंत्री, हिरन जलसंसाधन संभाग, जबलपुर 9425412441. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, पाटन क्षेत्र |
| 46. | श्री एस. के. कुरील, अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग संभाग क्र.-2, पाटन 9993212376. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, पाटन क्षेत्र |
| 47 | श्री जे. एल. साकरे, कार्य. यंत्री, विद्युत सुरक्षा एवं उप मुख्य विद्युत निरीक्षक, जबलपुर 9826566104. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, पाटन क्षेत्र |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|---|--------------|-----------------------------|
| 48 | श्री आर. के. ऑस्टिन, प्राचार्य, मॉडल आई. टी. आई., जबलपुर 9425829684. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, पाटन क्षेत्र |
| 49 | श्री एस. डी. दुबे, सहायक यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान मंडल, पचपेढी, जबलपुर 9425324678. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, पाटन क्षेत्र |
| 50 | श्री जी. एस. श्रीवास्तव, राज्य वन सेवा कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक, अनुविस्तार केन्द्र, जबलपुर 9425516007. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, सिहोरा क्षेत्र |
| 51 | श्री सुदीप श्रीवास्तव, सहायक प्रबंधक ग्रामीण सड़क परियोजना, जबलपुर 9425152241. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, सिहोरा क्षेत्र |
| 52 | श्री संतोष जैन, सहायक यंत्री, नर्मदा विकास संभाग-2, पनागर 9926658601. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, सिहोरा क्षेत्र |
| 53 | श्री सुरेश सोनी, सहायक प्रबंधक, ग्रामीण सड़क परियोजना, जबलपुर. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, सिहोरा क्षेत्र |
| 54 | श्री एस. के. द्विवेदी, कार्यपालन यंत्री, नगर निगम, जबलपुर 9425839568. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, सिहोरा क्षेत्र |
| 55 | श्री एस. एल. निमजे, सहायक प्रबंधक, ग्रामीण सड़क परियोजना, जबलपुर 9424338554. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, सिहोरा क्षेत्र |
| 56 | श्री आर. के. गुप्ता, सहायक यंत्री, योजना नगर निगम, जबलपुर 9407339891. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, सिहोरा क्षेत्र |
| 57 | श्री अभय पाण्डे, उपायुक्त, वाणिज्यकर, जबलपुर 9301275444 | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, सिहोरा क्षेत्र |
| 58 | श्री व्ही. एम. तायडे, अनुविभागीय अधिकारी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, सिहोरा 9425386770. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, सिहोरा क्षेत्र |
| 59 | श्री ए. के. अंबवानी, सहायक यंत्री, जबलपुर विकास प्राधिकरण, जबलपुर 9827270994. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, सिहोरा क्षेत्र |
| 60 | श्री नारायण मिश्रा, सहायक आयुक्त, वाणिज्यकर, जबलपुर 9425839531. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, सिहोरा क्षेत्र |
| 61 | श्री पी. के. सिंह, सहायक आयुक्त, वाणिज्यकर, जबलपुर 9425176900. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, सिहोरा क्षेत्र |
| 62 | श्री जी. एस. मिश्रा, कार्यपालन यंत्री, जबलपुर विकास प्राधिकरण, जबलपुर 9826145767. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, सिहोरा क्षेत्र |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|---|--------------|-----------------------------|
| 63 | श्री के. के. लाल, कार्यपालन यंत्री, रूपांकन सर्वेक्षण एवं अनुसंधान मंडल, पचपेढी 9755774601. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, सिहोरा क्षेत्र |
| 64 | श्री एस. के. श्रीवास्तव, सहायक यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, जबलपुर 9826244785. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, सिहोरा क्षेत्र |
| 65 | श्री अरूण श्रीवास्तव, सहायक यंत्री, कार्या. अधीक्षण यंत्री, सर्वे. एवं अनुसंधान मंडल 9424913155. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, सिहोरा क्षेत्र |
| 66 | श्री बी. डी. शिवहरे, सहायक यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, जबलपुर 9424310613. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, सिहोरा क्षेत्र |
| 67 | श्री आर. सी. शर्मा, सहायक यंत्री, कार्यालय अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, जबलपुर 9827249749. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, सिहोरा क्षेत्र |
| 68 | श्री पी. डी. डहाट, सहायक यंत्री, कार्यालय अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, जबलपुर 9425360862. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, सिहोरा क्षेत्र |
| 69 | श्री दीपक गंगाजलीवाले, उप संचालक, कार्यालय संयुक्त संचालक, प्रशिक्षण मढ़ाताल, जबलपुर 9425337906. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, सिहोरा क्षेत्र |
| 70 | श्री जे. एन. पाण्डे, परियोजना यंत्री, मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कार्पो., जबलपुर 9425601544. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, सिहोरा क्षेत्र |
| 71 | श्री पी. के. सिंह, कार्यपालन यंत्री, जे. एन. के. व्ही. व्ही., जबलपुर 9425384026. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, सिहोरा क्षेत्र |
| 72 | श्री टी. एस. कुमरे, सहायक यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, पनागर 9424743081. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, सिहोरा क्षेत्र |
| 73 | श्री पी. के. शर्मा, सहायक यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 4, सिहोरा 9826364825. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, सिहोरा क्षेत्र |
| 74 | श्री दीपक सोनी, सहायक यंत्री, कार्यालय अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन, पचपेढी 9425803974. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, सिहोरा क्षेत्र |
| 75 | श्री डी. के. खरे, सहायक संचालक, शिक्षा विभाग, जबलपुर 9425157963. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, सिहोरा क्षेत्र |
| 76 | श्री ए. के. श्रीवास्तव, सहायक यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान मंडल, पचपेढी, जबलपुर 9424913153. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, सिहोरा क्षेत्र |
| 77 | श्री आर. के. भार्गव, सहायक यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 4, बरगी हिल्स, जबलपुर 9329645034. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, सिहोरा क्षेत्र |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|--|--------------|----------------------------|
| 78 | श्री भारतसिंह बघेल, उप वन संरक्षक कार्या. मुख्य वन संरक्षक मध्य वृत्त म. प्र. जबलपुर 9425831083. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, मझौली क्षेत्र |
| 79 | श्री एन. एल. अग्रवाल, सहायक यंत्री, जे. डी. ए., जबलपुर 9425160005. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, मझौली क्षेत्र |
| 80 | श्री पवन कुमार जैन, महाप्रबंधक, म. प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, जबलपुर 9425162970. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, मझौली क्षेत्र |
| 81 | श्री संजय खरे, सहायक यंत्री, जे. डी. ए., जबलपुर 9826492114. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, मझौली क्षेत्र |
| 82 | श्री अनिल गुप्ता, सहायक यंत्री, मुख्य अभियंता, नर्मदा जोन, बरगी हिल्स, जबलपुर 9826182890. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, मझौली क्षेत्र |
| 83 | श्री एस. पी. गांधी, सहायक यंत्री, जे. डी. ए., जबलपुर 9425373137. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, मझौली क्षेत्र |
| 84 | श्री सुरेन्द्र खरे, सहायक यंत्री, मुख्य अभियंता, नर्मदा जोन बरगीहिल्स, जबलपुर 9993613366. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, मझौली क्षेत्र |
| 85 | श्री अरूण खर्द, सहायक यंत्री, जे. डी. ए., जबलपुर 9425044645. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, मझौली क्षेत्र |
| 86 | श्री ए. के. नागोरिया, सहायक यंत्री, मुख्य अभियंता, नर्मदा जोन, बरगीहिल्स, जबलपुर 9926521810. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, मझौली क्षेत्र |
| 87 | श्री वी. डी. लोनकर, सहायक यंत्री, जे. डी. ए., जबलपुर 9424309802. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, मझौली क्षेत्र |
| 88 | श्री अजय सुरे, सहायक यंत्री, मुख्य अभियंता, नर्मदा जोन, बरगी हिल्स, जबलपुर 9425411335. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, मझौली क्षेत्र |
| 89 | श्री कपिल शुक्ला, सहायक यंत्री, जे. डी. ए., जबलपुर 9893984500. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, मझौली क्षेत्र |
| 90 | श्री एम. के. ढिमोले, सहायक यंत्री, नर्मदा विकास अनुविभाग क्र. 2, मझौली 9926470916. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, मझौली क्षेत्र |
| 91 | श्री एस. एन. भेले, सहायक यंत्री, जे. डी. ए., जबलपुर 9827086200. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, मझौली क्षेत्र |
| 92 | श्री सी. एस. राजपाल, सहायक यंत्री, नर्मदा विकास अनुविभाग क्र. 20, सिहोरा 9893081140. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, मझौली क्षेत्र |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|--|--------------|----------------------------|
| 93 | श्री रूपनारायण गुप्ता, कार्यपालन यंत्री, मुख्य अभियंता अपर नर्मदा जोन बरगी हिल्स 9300743494. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, मझौली क्षेत्र |
| 94 | श्री बांकैलाल चतुर्वेदी, कार्यपालन यंत्री, मुख्य अभियंता अपर नर्मदा जोन, बरगीहिल्स, 9425878388. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, मझौली क्षेत्र |
| 95 | श्री जे. के. ओसवाल, सहायक यंत्री, कार्यालय अधीक्षण यंत्री सर्वेक्षण अनुसंधान मंडल, पचपेढी, जबलपुर 993022264. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, मझौली क्षेत्र |
| 96 | डॉ. जी. पी. पाण्डे, प्रभारी माता महामारी पशु चिकित्सा सेवार्ये, जबलपुर 9713827709 / 9693769250. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, मझौली क्षेत्र |
| 97 | श्री संतोष जैन, सहायक यंत्री, नर्मदा विकास संभाग-2, पनागर 9926658601. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, मझौली क्षेत्र |
| 98 | श्री आर. एस. द्विवेदी, कार्यपालन यंत्री, म. प्र. गृह निर्माण मंडल, हाथीताल, जबलपुर 9893551867. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, मझौली क्षेत्र |
| 99 | श्री एम. के. महेश्वरी, उप संचालक, पुरातत्व, जबलपुर 9893585225. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, मझौली क्षेत्र |
| 100 | श्री एस. के. कुल्हाड़े, सहायक यंत्री, लोक निर्माण विभाग, आर/आर, जबलपुर 9424393857. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, मझौली क्षेत्र |
| 101 | श्री व्ही. के. खण्डेलवाल, सहायक यंत्री, लोक निर्माण विभाग भ/स, जबलपुर 9425821600. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, मझौली क्षेत्र |
| 102 | श्री मनोज बरेहिया, उप संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा जबलपुर 9827287227. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, मझौली क्षेत्र |
| 103 | श्री आई. ए. शेख, कार्यपालन यंत्री, मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, जबलपुर 9425853622. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, मझौली क्षेत्र |
| 104 | श्री डी. के. सोनी, सहायक यंत्री, नगरीय प्रशासन, जबलपुर 9827517502. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, मझौली क्षेत्र |
| 105 | श्री भूपेन्द्र सिंह बघेल, सहायक यंत्री, नगर निगम, जबलपुर 9425330780. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, मझौली क्षेत्र |
| 106 | श्री संजय पाण्डे, सहायक यंत्री, नगर निगम, जबलपुर 9826153494. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, मझौली क्षेत्र |
| 107 | श्री ए. के. तिवारी, सहायक वन संरक्षक, मध्य वन वृत्त, जबलपुर 9425838437. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, मझौली क्षेत्र |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|--|--------------|----------------------------|
| 108 | श्री पी. एस. कुशवाहा, कार्यपालन यंत्री, मुख्य अभियंता रा. अ. बा. सागर, बरगी हिल्स, जबलपुर 9893793679. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, मझौली क्षेत्र |
| 109 | श्री के. के. कौशल, उप संचालक, तकनीकी भौमिकी एवं खनिकर्म, जबलपुर 9826777062. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, मझौली क्षेत्र |
| 110 | श्री एस. पी. शाह, कार्यपालन यंत्री, मुख्य अभियंता, रा. अ. बा. सागर बरगी हिल्स, जबलपुर 9926541274. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, मझौली क्षेत्र |
| 111 | श्री व्ही. के. राठौर, अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा जबलपुर 9425834152. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, मझौली क्षेत्र |
| 112 | श्री वी. के. कुकरेजा, सहायक प्रबंधक, ग्रामीण सड़क परियोजना, जबलपुर 9425466882. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, मझौली क्षेत्र |
| 113 | श्री टी. एस. कुमरे, सहायक यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, पनागर 9424743081. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, मझौली क्षेत्र |
| 114 | श्री एस. के. द्विवेदी, कार्यपालन यंत्री, नगर निगम, जबलपुर 9425839568. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, मझौली क्षेत्र |
| 115 | श्री आर. एन. बानी, प्र. कार्यपालन यंत्री, विधि प्रकोष्ठ, जल संसाधन, पचपेढी, जबलपुर 9425152269. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, पनागर क्षेत्र |
| 116 | श्री एच. के. त्रिवेदी, सहायक भूजल विद कार्या. वरिष्ठ भूजलविद इकाई-5, जबलपुर 9425157021. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, पनागर क्षेत्र |
| 117 | श्री आर. के. रावत, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र.-4, सिहोरा 9425152106. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, पनागर क्षेत्र |
| 118 | श्री के. पी. पाण्डे, उप संचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास अधिकारी, जबलपुर 9424604197. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, पनागर क्षेत्र |
| 119 | श्री नागेन्द्र शर्मा, जिला पंजीयक मुद्रांक एवं पंजीयन, जबलपुर 9425482030. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, पनागर क्षेत्र |
| 120 | श्री ए. के. नागपुरे, अधीक्षण यंत्री विद्युत सुरक्षा एवं उप मुख्य विद्युत निरीक्षक, जबलपुर 9425365484. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, पनागर क्षेत्र |
| 121 | श्री आर. बी. बट्टी, संयुक्त संचालक, सहकारिता विभाग, जबलपुर 9826319842. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, पनागर क्षेत्र |
| 122 | श्री आशीष श्रीवास्तव, परियोजना प्रबंधक प्रोजेक्ट उदय, नगर निगम, जबलपुर 9685043678. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, पनागर क्षेत्र |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|--|--------------|----------------------------|
| 123 | श्री पी. आर. देव, मुख्य रसायनज्ञ क्षेत्रीय कार्या. म.प्र. प्रदूषण बोर्ड, विजयनगर 9807570974. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, पनागर क्षेत्र |
| 124 | श्री ओ. पी. सक्सेना, संयुक्त संचालक, मत्स्य विभाग, जबलपुर 9425102297. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, पनागर क्षेत्र |
| 125 | श्री आर. के. शर्मा, उपायुक्त, राजस्व नगर निगम, जबलपुर 9425461539. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, पनागर क्षेत्र |
| 126 | श्री जी. एन. सिंह, कार्यपालन यंत्री, जबलपुर विकास प्राधिकरण, जबलपुर 9300111117. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, पनागर क्षेत्र |
| 127 | श्री ए. के. तिवारी, अधीक्षण यंत्री, नगर निगम, जबलपुर 9826110630. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, पनागर क्षेत्र |
| 128 | श्री जे. एस. कुशरे, अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मंडल, पचपेढ़ी, जबलपुर 9425138502. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, पनागर क्षेत्र |
| 129 | श्री नारायण मिश्रा, सहा. आयुक्त वाणिज्यकर, जबलपुर 9425839531. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, पनागर क्षेत्र |
| 130 | श्री पी. के आनन्द, अधीक्षण यंत्री, जबलपुर विकास प्राधिकरण, जबलपुर 9301133663. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, पनागर क्षेत्र |
| 131 | श्री श्याम मंडल, अधीक्षण यंत्री, जबलपुर विकास प्राधिकरण, जबलपुर 9300115656. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, पनागर क्षेत्र |
| 132 | श्री जी. के. यादव, सहायक यंत्री, मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कार्पो., जबलपुर 9425601545. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, पनागर क्षेत्र |
| 133 | श्री आई. एन. निगम, संयुक्त संचालक, पशु चिकित्सा विभाग, जबलपुर 9977277365. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, पनागर क्षेत्र |
| 134 | श्री जे. सी. शर्मा, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग-4 जबलपुर 9425156886. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, पनागर क्षेत्र |
| 135 | श्री एच. के. नेताम, मुख्य विश्लेषक, भौमिकी एवं खनिकर्म, जबलपुर 9329677612. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, पनागर क्षेत्र |
| 136 | श्री जे. के. मोदी, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग-2, पनागर 9424044537. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, पनागर क्षेत्र |
| 137 | श्री पी. डी. शर्मा, सहायक यंत्री, नर्मदा विकास संभाग-2 पनागर 9827381568. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, पनागर क्षेत्र |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|---|--------------|-----------------------------|
| 138 | श्री एस. के. बघेल, कार्यपालन यंत्री, गुणवत्ता नियंत्रण संभाग क्र. 29, बरगीहिल्स, जबलपुर 9424357564. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, पनागर क्षेत्र |
| 139 | श्री डी. एस. गौड़, सहायक यंत्री, गुणवत्ता नियंत्रण संभाग क्र. 29, बरगीहिल्स, जबलपुर 9425363411. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, पनागर क्षेत्र |
| 140 | श्री प्रदीप सिंह बैस, संयुक्त संचालक, समाजिक न्याय, जबलपुर 9425455455. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, पनागर क्षेत्र |
| 141 | श्री राजेश त्रिवेदी, सहायक श्रम आयुक्त, गोरखपुर, जबलपुर 9425048990. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, पनागर क्षेत्र |
| 142 | श्री आर. के. पाण्डे, संयुक्त संचालक, नगर निवेश, जबलपुर 9229530391. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, पनागर क्षेत्र |
| 143 | श्री एस. के. कोरी, अनुविभागीय अधिकारी, रा. अ. बा. सागर संभाग क्र.-2, बरगी हिल्स, जबलपुर 9826128534. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, पनागर क्षेत्र |
| 144 | श्री परमेश जलोटे, नोडल अधिकारी, नगर निगम, जबलपुर 9424412739. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, पनागर क्षेत्र |
| 145 | श्री आर. डी. प्रजापति, परियोजना अधिकारी, जिला पंचायत, जबलपुर 9425198429. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, पनागर क्षेत्र |
| 146 | श्री आर. एस. वर्मा, सहायक यंत्री, हिरन जलसंसाधन संभाग, जबलपुर 9826818528. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, पनागर क्षेत्र |
| 147 | श्री एस. सी. जैन, प्रभारी कार्यपालन यंत्री, हिरन जलसंसाधन संभाग, जबलपुर 9425412441. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, पनागर क्षेत्र |
| 148 | श्री एस. के. कुरील, अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग संभाग क्र.-2, पाटन 9993212376. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, पनागर क्षेत्र |
| 149 | श्री संजय अब्राहम, परियोजना अधिकारी, आई. सी. डी. एस. शहरी क्र. 3, रामपुर, जबलपुर 9425152779. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, जबलपुर क्षेत्र |
| 150 | श्री अश्विनी अंबर, अनुसंधान अधिकारी एम. पी. एस. आई. आर. डी., जबलपुर 9406675086. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, जबलपुर क्षेत्र |
| 151 | श्री सुधीर जैन, प्रशासनिक अधिकारी, म. प्र. राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, जबलपुर 9406740792. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, जबलपुर क्षेत्र |
| 152 | श्री ए. के. उपाध्याय, सहायक यंत्री, हिरन जल संसाधन, जबलपुर 9826500890. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, जबलपुर क्षेत्र |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|---|--------------|-----------------------------|
| 153 | श्री गिरीश ताम्रकार, सहायक यंत्री, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विजय नगर, जबलपुर 9893339944. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, जबलपुर क्षेत्र |
| 154 | श्री आर. आर. सिंह, सहायक यंत्री, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विजय नगर, जबलपुर 9827234137. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, जबलपुर क्षेत्र |
| 155 | श्री के. के. भावसार, उप नियंत्रक, नापतौल, जबलपुर 9826378915. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, जबलपुर क्षेत्र |
| 156 | श्री अनिल गुप्ता, सहायक यंत्री, मुख्य अभियंता, नर्मदा जोन बरगी हिल्स, जबलपुर 9826182890. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, जबलपुर क्षेत्र |
| 157 | श्री सुरेन्द्र खरे, सहायक यंत्री, मुख्य अभियंता, नर्मदा जोन बरगी हिल्स, जबलपुर 9425411335. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, जबलपुर क्षेत्र |
| 158 | श्री ए. के. नगोरिया, सहायक यंत्री, मुख्य अभियंता, नर्मदा जोन बरगी हिल्स, जबलपुर 9926521810. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, जबलपुर क्षेत्र |
| 159 | श्री अजय सुरे, सहायक यंत्री, मुख्य अभियंता, नर्मदा जोन बरगी हिल्स, जबलपुर 9425411335. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, जबलपुर क्षेत्र |
| 160 | श्री जे. के. मोदी, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग-2, पनागर 9424044537. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, जबलपुर क्षेत्र |
| 161 | श्री पी. डी. शर्मा, सहायक यंत्री, नर्मदा विकास संभाग-2, पनागर 9827381568. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, जबलपुर क्षेत्र |
| 162 | श्री एच. के. यादव, सहायक यंत्री, नर्मदा विकास संभाग-2, पनागर 9424676701. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, जबलपुर क्षेत्र |
| 163 | श्री एस. के. बघेल, कार्यपालन यंत्री, गुणवत्ता नियंत्रण संभाग क्र. 29, बरगी हिल्स, जबलपुर 9424357564. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, जबलपुर क्षेत्र |
| 164 | श्री डी. एस. गौड़, सहायक यंत्री, गुणवत्ता नियंत्रण संभाग क्र. 29, बरगी हिल्स, जबलपुर 9425363411. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, जबलपुर क्षेत्र |
| 165 | श्री गिरीश बिल्लौरै, परियोजना अधिकारी, आई. सी. डी. एस., बरगी 9926471072. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, जबलपुर क्षेत्र |
| 166 | श्री एस. के. कोरी, अनुविभागीय अधिकारी, रा. अ. बा. सागर संभाग क्र.-2, बरगी हिल्स, जबलपुर 9826128534. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, जबलपुर क्षेत्र |
| 167 | श्री जे. एल. साकरे, कार्यपालन यंत्री, विद्युत सुरक्षा एवं उप मुख्य विद्युत निरीक्षक, जबलपुर 9826566104. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, जबलपुर क्षेत्र |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|---|--------------|-----------------------------|
| 168 | श्री एम. एल. अहिरवार, कार्यपालन यंत्री, रा. अ. सागर बांध बरगी नगर, जबलपुर 9826085017. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, जबलपुर क्षेत्र |
| 169 | श्री आर. के. ऑस्टिन, प्राचार्य, मॉडल आई. टी. आई., जबलपुर 9425829684. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, जबलपुर क्षेत्र |
| 170 | श्री एस. बी. धोपेश्वर, सहायक भौमिकी विद खनिज कार्मिक क्षेत्रीय, जबलपुर 9425452417. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, जबलपुर क्षेत्र |
| 171 | श्री ए. के. श्रीवास्तव, सहायक यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान मंडल, पचपेढी, जबलपुर 9424913153. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, जबलपुर क्षेत्र |
| 172 | श्री आर. के. भार्गव, सहायक यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र.-4, बरगी हिल्स, जबलपुर 9329645034. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, जबलपुर क्षेत्र |
| 173 | श्री एस. सी. व्यास, उपायुक्त, वाणिज्यकर, जबलपुर 9826240056. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, जबलपुर क्षेत्र |
| 174 | श्री एम. के. ढिमोले, सहायक यंत्री, नर्मदा विकास अनुविभाग क्र.-2, मझौली 9926470916. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, जबलपुर क्षेत्र |
| 175 | श्री डी. के. मालवीय, सहा. यंत्री, कार्या. अधीक्षण यंत्री, नर्मदा विकास संभाग-4, बरगी हिल्स, जबलपुर. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, जबलपुर क्षेत्र |
| 176 | श्री ए. के. जैन, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग-4, बरगी हिल्स, जबलपुर 9827607497. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, जबलपुर क्षेत्र |
| 177 | श्री सी. एस. राजपाल, सहायक यंत्री, नर्मदा विकास अनुविभाग क्र. 20, सिहोरा 9893081140. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, जबलपुर क्षेत्र |
| 178 | श्री अरूण श्रीवास्तव, सहायक यंत्री, कार्या. अधीक्षण यंत्री, सर्वे, एवं अनुसंधान मंडल 9424913155. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, जबलपुर क्षेत्र |
| 179 | श्री एस. आर. शिवेदी, उप संचालक, खादी ग्रामोद्योग, जबलपुर 9826503093. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, जबलपुर क्षेत्र |
| 180 | श्री व्ही. के. दुबे, प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, संयुक्त संचालक कार्यालय, जबलपुर 9329121353. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, जबलपुर क्षेत्र |
| 181 | श्री पी. के. सिंह, सहायक आयुक्त, वाणिज्यकर, जबलपुर 9425176900. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, जबलपुर क्षेत्र |
| 182 | श्री एन. एन. सिद्धिकी, सहायक यंत्री, लोक निर्माण विभाग, ई एण्ड एम, जबलपुर 9425325635. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, जबलपुर क्षेत्र |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|---|--------------|-----------------------------|
| 183 | श्री बी. एम. शुक्ला, अनुविभागीय अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग, शहपुरा 9425411053. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, जबलपुर क्षेत्र |
| 184 | श्री एस. के. कुल्हाड़े, सहायक यंत्री, लोक निर्माण विभाग, आर/आर, जबलपुर 9424393857. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, जबलपुर क्षेत्र |
| 185 | श्री आर. जी. चौबे, कार्यपालन यंत्री, विद्युत यांत्रिकी संभाग क्र. 2, बरगी नगर, जबलपुर 9425357201. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, जबलपुर क्षेत्र |
| 186 | श्री जी. डी. द्विवेदी, कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग, जबलपुर 9424925720. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, जबलपुर क्षेत्र |
| 187 | श्री जी. के. तिवारी, महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जबलपुर 9424925505. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, जबलपुर क्षेत्र |
| 188 | डॉ. आर. के. पाण्डे, वैज्ञानिक-डी संचालक, राज्य वन अनुसंस्थान पोलीपाथर, जबलपुर 9993400918. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, शहपुरा क्षेत्र |
| 189 | डॉ. एस. के. तिवारी, वैज्ञानिक-सी संचालक, राज्य वन अनुसंस्थान, पोलीपाथर, जबलपुर 9407022064. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, शहपुरा क्षेत्र |
| 190 | श्री एस. पी. गौतम, संपत्ति अधि. म. प्र. गृह निर्माण मंडल हाथीताल, जबलपुर 9425800525. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, शहपुरा क्षेत्र |
| 191 | श्री अनिल चौहान, विधि अधिकारी, नगर निगम, जबलपुर 9827779584. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, शहपुरा क्षेत्र |
| 192 | श्री आर. के. रावत, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र.-4, सिहोरा 9425152106. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, शहपुरा क्षेत्र |
| 193 | श्री ओ. पी. खण्डेलवाल, प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, जबलपुर 9826273624. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, शहपुरा क्षेत्र |
| 194 | श्री व्ही. एम. तायडे, अनुविभागीय अधिकारी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, सिहोरा 9425386770. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, शहपुरा क्षेत्र |
| 195 | श्री जी. पी. कोरी, अनुविभागीय अधिकारी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, पाटन 9425384740. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, शहपुरा क्षेत्र |
| 196 | श्री आर. एस. ठाकुर, अनुविभागीय अधिकारी, कार्या. रा. अ. बा. सागर संभाग-2, बरगी हिल्स, जबलपुर 9826103546. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, शहपुरा क्षेत्र |
| 197 | श्री बी. एस. गौड़, सहा. यंत्री, कार्या. कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र 4, सिहोरा 9425860211. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, शहपुरा क्षेत्र |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|---|--------------|-----------------------------|
| 198 | श्री डी. के. श्रीवास्तव, प्राचार्य, कृषक प्रशिक्षण केन्द्र कंचनपुर, आधारताल, जबलपुर 9826299963. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, शहपुरा क्षेत्र |
| 199 | श्री जी. सी. मर्सकोले, कृषि यंत्री, कृषि अभियांत्रिकी कार्यालय, जबलपुर 9424351916. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, शहपुरा क्षेत्र |
| 200 | श्री एस. एस. पवार, कार्यपालन यंत्री, रानी अवन्ती बाई सागर नहर संभाग क्र. 2, जबलपुर 9300104296. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, शहपुरा क्षेत्र |
| 201 | श्री आर. एस. त्रिपाठी, अनु. अधिकारी, रानी अवन्ती बाई सागर संभाग 2, बरगी 9425877583. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, शहपुरा क्षेत्र |
| 202 | श्री पी. के. वैद्य, सहायक यंत्री, नर्मदा विकास संभाग-4 कटंगी, जबलपुर 9826321607. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, शहपुरा क्षेत्र |
| 203 | श्री आर. एस. दुबे, अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, सिहोरा, जबलपुर 9893675547. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, शहपुरा क्षेत्र |
| 204 | श्री एन. एल. डेगरा, सहा. यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग पचपेढी, जबलपुर 9827298096. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, शहपुरा क्षेत्र |
| 205 | श्री आर. एन. बानी, प्र. कार्यपालन यंत्री, विधि प्रकोष्ठ जल संसाधन, पचपेढी, जबलपुर 9425152269. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, शहपुरा क्षेत्र |
| 206 | श्री एस. के. अग्रवाल, वरिष्ठ भूजल विद् अनुसंधान मंडल पचपेढी, जबलपुर 9425341416. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, शहपुरा क्षेत्र |
| 207 | श्री पवन शर्मा, कार्यपालन यंत्री, कार्या. उप संचालक, नगरीय प्रशासन, जबलपुर 9425384731. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, शहपुरा क्षेत्र |
| 208 | श्री आर. एम. वर्मा, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 8, सिहोरा 9425325319. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, शहपुरा क्षेत्र |
| 209 | श्री एम. एल. फौजदार, सहायक यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 4, जबलपुर 9826552106. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, शहपुरा क्षेत्र |
| 210 | श्री एस. डी. दुबे, सहायक यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान मंडल, पचपेढी, जबलपुर 9425324678. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, शहपुरा क्षेत्र |
| 211 | श्री एस. एस. खरे, सहायक यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी कुण्डम, जबलपुर 9893350592. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, शहपुरा क्षेत्र |
| 212 | श्री प्रमोद खरे, सहायक यंत्री, मुख्य अभि. रानी अवन्ती बाई सागर परि. बरगी हिल्स 9424913479. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, शहपुरा क्षेत्र |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|---|--------------|-----------------------------|
| 213 | श्री जी. पी. तिवारी, सहायक यंत्री, हिरन जल संसाधन जबलपुर 9827285622. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, शहपुरा क्षेत्र |
| 214 | श्री एस. एल. मुजाल्दा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला अंत्यावसायी निगम, जबलपुर 9200013079. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, शहपुरा क्षेत्र |
| 215 | श्री एच. के. नेताम, मुख्य विश्लेषक भौमिकी एवं खनिकर्म जबलपुर 9329677612. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, शहपुरा क्षेत्र |
| 216 | श्री व्ही. के. जैन, सहायक यंत्री, रा. अ. बा. सा. संभाग-2 बरगी हिल्स, जबलपुर 9424728315. | राज्य स्तरीय | जनपद पंचायत, शहपुरा क्षेत्र |